

Date: 11.02.2019

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper advertisement given pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)

Dear Sir/Madam,


Please find enclosed herewith the newspaper advertisements published by the Company pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015:

1. Advertisement published on February 2, 2019 in Business Standard (English & Hindi) regarding notice of meeting of the Board of Directors of the Company held on February 9, 2019 to consider and approve the un-audited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.
2. Advertisement published on February 10, 2019 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) regarding un-audited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For **PC Jeweller Limited**


(VIJAY PANWAR)
Company Secretary

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

CIN : L26209UP197PLC003444
 Regd. Office : D-19-20, Park, Industrial Area, Kanpur - 208022
 Ph.: +91 512 2691133-6; Fax: +91 512 2691117;
 Email: secretary@kamplas.com, website : www.kampas.com

ADJUSTED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2018

Quarter Ended	Year Ended	
	31.12.2018	31.03.2018
31.12.2018	31.12.2017	30.09.2018
Unaudited	Unaudited	Unaudited
9,390.92	7,385.99	8,432.88
643.09	736.43	668.12
464.15	478.43	501.38
464.15	478.43	501.38
1,431.70	1,193.88	1,431.70
		1,313.27
		9,147.53
3.25	3.64	3.51
3.24	3.34	3.50
		13.36
		13.13

Reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective Review was carried out by the Statutory Auditors of the Company.

Unaudited quarterly financial results as filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Requirements) Regulations 2015. The full Quarterly Financial Results are available on the company's website www.kampas.com.

For and on behalf of the Board of Directors
 Sd/-
 (Manoj Agarwal)
 Managing Director

G CORPORATION OF INDIA LIMITED

ment Of India Undertaking) CIN No.L29222DL1976G0008129
 "Scope Milar", Plot No.2A & 2B, Laxmi Nagar District Centre, Delhi - 110091,
 se", Port Area, Vashikarapattam - 530001. E-mail ID : speakinh@ciil.co.in,
 233250; Fax No. - 0891-2560581; Website : www.drledge-india.com

Pipeline for Ports

SERVICES :

- Capital Dredging
- Maintenance Dredging
- Beach Nourishment
- Land Reclamation
- Project Management Consultancy
- Shallow Water Dredging

8

ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED

CIN : L27100MH1979PC032200
 Regd. Office : 14, Nagesh Sagar Road
 2nd Floor, Kharar - 160001
 Tel: 035-2343435/22428531; Fax: 035-22428533
 Email: investors@adunikgroup.com
 Corporate Office : 2/A, Saral Bose Road,
 Laxmipore Towers, Kolkata-700020
 Tel: 035-3051700; Fax: 035-22890286
 Website: www.adhunikindustries.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29, 33 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company on the Corporate Office of the Company on Wednesday, 13th day of February, 2019 to inter-alia discuss, consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2018. The information is also placed on the website of the Company at www.adhunikindustries.com and at www.seindia.com and www.bseindia.com and www.cseindia.com.

Place: Kolkata
 Date: 01/02/2019

Sd/-
 Jugal Kishore Agarwal
 Managing Director

PC Jeweller Limited

Registered Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110 092
 Phone: 011-49714971; Fax: 011-49714972; CIN: L36911DL2005PLC134929
 E-mail: investors@pcjeweller.com, Website: www.pcjeweller.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on February 9, 2019, inter-alia, to consider and approve the unaudited standalone financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2018.

In view of the same in terms of the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, the Trading Window for trading in the shares of the Company shall remain closed from February 2, 2019 to February 11, 2019 (both days inclusive).

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section.

For PC Jeweller Limited
 Sd/-
 (Vijay Panwar)
 Company Secretary

Place: Delhi
 Date: 01/02/2019



Solapur City Development Corporation Limited

E-Tender Notice No : 16
 Date: 31.01.2019

Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) is inviting proposals for Appointment of Contractor for Supply and Erection of Street Light Poles at Solapur city under the Smart Cities Mission

Name of Work	Estimated Cost	EMD Amount	Initial Security Deposit Amount	Completion Period	Cost of Bank Tender Form
Appointment of Contractor for Supply and Erection of Thirteen Core Sixty Four Street Light Poles at Solapur City under the Smart Cities Mission	Rs. 13,64,88,800/- (Rupees Thirteen Core Sixty Four Lakh Eighty Eight Thousand Six Hundred) (Rs. 13.65 Cr.)	Rs. 6,85,000/-	Rs. 34,50,000/-	6 Months	Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand Only including GST)

Pre bid Meeting is at 11:30 PM on 14.02.2019 at Solapur Municipal Corporation Meeting hall, Solapur.
 Bid Submission date is 3:00 PM of 26.02.2019.
 The Technical Bid Opening date is 4:00 PM of 27.02.2019
 The tender can be downloaded from www.mahatenders.gov.in
 The bidders should quote exclusive of GST
 All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCDCL
Tender ID : 2019_SMC_408166_1

Sd/-
 Chief Executive Officer
 Solapur City Development Corporation Limited

NEW DELHI | 2 FEBRUARY 2019

CORRIGENDUM No. - 1

Solapur City Development Corporation Limited

E-Tender Notice No : 12
 Extension 1
 Date: 31.01.2019

Tender ID : 2019_SMC_400737_1

Solapur City Development Corporation Limited (SCDCL) is inviting Proposals for Augmentation to Solapur City Water Supply Scheme (Ujan Dam as a source - 110 MLD) on Design, Build, Maintain, Operate and Transfer (DBMOT) basis under Smart City Mission (2nd call).

Bidders are requested to take into consideration that the bid due date has been extended to 11:02:2019 till 15:00 Hrs.

Revised bid opening (technical) is 12:02:2019, at 15:00 Hrs.
 Response to pre bid queries can be downloaded from <http://mahatenders.gov.in>
 All rights of acceptance and rejection of tender is reserved by SCDCL.

Sd/-
 Chief Executive Officer
 Solapur City Development Corporation Limited

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)
 (CIN No. L74699 DL1956 G01002674)
 Jawahar Vapaa Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi - 110001
 Tel.: 011-23331317/7, Fax: 011-2370123/23701191

Notice of Board Meeting & Closure of Trading Window

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform that the next meeting of the Board of Directors of The State Trading Corporation of India Limited will be held on Monday, 11th February, 2019 to, inter-alia, consider, approve and take on record the unaudited financial results (reviewed) prepared on standalone basis for the quarter and nine months ended on December 31, 2018 and other agenda matters.

Pursuant to this, the Company has decided to Close "Trading Window" under Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders of The State Trading Corporation of India Limited from February 4, 2019 till the end of 48 hours after the results are made public on February 11, 2019. (Deepak C S)

New Delhi, Dated : 31.01.2019
 Company Secretary & Compliance Officer

THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD.

Regd. Office: Ocean House, 134-A, D. A. B. Road, Worli, Mumbai-400 018
 CIN NO.: L35110MH1948PLC006472
 Tel. No.: +91 (22) 66613000; Fax No.: +91 (22) 24925900

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, February 11, 2019 inter-alia, to take on record the unaudited financial results (provisional) of the Company for the quarter ended December 31, 2018.

These details are also available on the Bombay Stock Exchange website (URL: www.bseindia.com/corporates), the National Stock Exchange website (URL: www.nseindia.com/corporates) and on the Company website (URL: www.greatship.com/press_releases.html).

For The Great Eastern Shipping Co. Ltd.
 Sd/-

Chief Executive Officer
 Solapur City Development Corporation Limited

IN DEBT TRAP

Oil exporters yet to recover from price shock: IMF chief

REUTERS
Dubai, February 9

OIL EXPORTERS HAVE NOT fully recovered from the dramatic oil price shock of 2014, the head of the IMF said on Saturday, and cautioned against spending money on "white elephant projects".

"With revenues down, fiscal deficits are only slowly declining, despite significant reforms on both the spending and revenue sides, including the introduction of VAT and excise taxes," Christine Lagarde, the managing director of the IMF, told a conference in Dubai.

"This has led to a sharp increase in public debt, from 13% of GDP in 2013 to 33% in 2018," Lagarde said, the uncertainty in the growth outlook for oil exporters also reflected moves by countries to shift rapidly toward renewable energy over the new few decades, in line with the Paris climate change pact.

She said there was scope to improve fiscal frameworks in the Middle East with some of the weaknesses emanating from "short-termism and insufficient credibility". Lagarde said governments in the region might be tempted to favour white elephant projects instead of investment in people and productive potential. Saudi Arabia, the Middle East's biggest economy, has announced plans to go ahead with three major projects including NEOM, a \$500 billion economic zone announced by Crown Prince Mohammed bin Salman. The projects are backed by the country's sovereign wealth fund, the Public Investment Fund. Lagarde also said across the region, it is common for sovereign wealth funds to directly finance projects, bypassing the normal budget process, while state-owned enterprises in some countries had high levels of borrowing, outside the budget. She said oil exporters could fol-



IMF MD Christine Lagarde

low the example of other resource-rich countries such as Chile and Norway which use fiscal rules to protect priorities, such as social spending, from commodity price volatility. Among oil importers in the Middle East region, growth had picked up, but it was still below the level before the global financial crisis, she said.

Fiscal deficits remained high, and public debt had risen rapidly—from 64% of GDP in 2008 to 85% a decade later, she said. Public debt now exceeded 90% of GDP in nearly half of the countries. Lagarde said the IMF was not seeing a global recession on the horizon, but risks were rising for global growth due to trade tensions and tightening financial conditions. The IMF's revised forecast sees the global economy growing by 3.5% this year, 0.2 percentage points below what it expected in October.

"Unsurprisingly, a weaker global environment has knock-on effects on the region through a variety of channels—trade, remittances, capital flows, commodity prices, and financing conditions," she said.

War of words continues between startup TravelKhana and CBDT

FE BUREAU
New Delhi, February 9

IN THE ENSUING war of words between Delhi-based startup TravelKhana and apex direct tax body CBDT, the former has presented its side of the story after the CBDT issued a clarification late on Friday night, saying that the action of attaching the company's bank account to recover ₹36 lakh was under a different provision of the Income Tax Act and not under the so-called 'Angel Tax' provision.

Fushinder Singh, founder, TravelKhana, responding to the CBDT clarification said in his blog that there was no cash transaction involving the company as alleged by the Income tax

department notice. Further, Singh said that the ITD did not allow the company the required time to furnish the details of investors and also refused to entertain the plea of stay on assessment order demanding ₹2.1 crore.

After facing criticism over notices sent to the startup demanding tax at 30% on funding received by early-stage investors, the CBDT issued directions to its officials in December last year, asking them to refrain from coercive action on notices sent under section 56(2)(viib), while the CBDT worked on a new dispensation to deal with taxation on startup funding. Justifying the action against TravelKhana, the

CBDT in its statement said that the case against the company was "under section 68 of the Income Tax Act on account of unexplained cash credits and not under section 56(2)(viib) on account of premium on shares, as has been alleged".

"Thus, it is clear that the case of TravelKhana is not covered by the instruction issued by CBDT of December 24, 2018, prohibiting coercive measures for enforcing demand of outstanding demand in angel tax cases, as the addition was made under section 68 of the IT Act and not under section 56(2)(viib) of the CBDT said."

Singh in his blog said that the company did not engage in any cash transaction as investment.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय BANARAS HINDU UNIVERSITY
(AN INSTITUTION OF NATIONAL IMPORTANCE ESTABLISHED BY AN ACT OF PARLIAMENT)
Tel : (0542) 2368418, E: controller@bhu.ac.in, W: www.bhu.ac.in

ADMISSION ANNOUNCEMENT FOR THE ACADEMIC SESSION 2019-20

The Banaras Hindu University (BHU), founded by Bharat Rishi Maharajama Pandit Madan Mohan Malaviya in 1916, is one of the most prestigious Central Universities comprising 5 Institutes (Institute of Medical Sciences, Institute of Agricultural Sciences, Institute of Environment and Sustainable Development, Institute of Science and Institute of Management Studies), 16 Faculties (Modern Medicine, Ayurveda, Dental Sciences, Agriculture, Environment and Sustainable Development, Arts, Commerce, Education, Law, Management Studies, Performing Arts, Sanskrit Vidya Dharma Vijnan, Science, Social Sciences, Visual Arts and Veterinary and Animal Sciences), 135 Departments, a Mahila Mahavidyalaya, 2 Interdisciplinary Schools in its main campus at Varanasi and Rajiv Gandhi South Campus at Barkakha, Mirzapur.

The University invites online applications from eligible candidates for admission to its various Under Graduate and Post Graduate courses for the Academic Session 2019-20. Computer Based Test (CBT) will be conducted in 115 cities across the country for Admissions to the various Undergraduate & Postgraduate courses. Applicants of the Undergraduate courses will also have an option of Pen-Paper Mode (OMR) test which will be conducted in 45 cities. Details of Courses, Application Form, Test Date and other required information will be available on the University's Entrance Test Portal (www.bhuonline.in) w.e.f. 10.02.2019.

Last date of receipt of online application form is 09.03.2019. REGISTRAR

IDFC posts 11-fold rise in Q3 net profit at ₹26 crore due to tax adjustment

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, February 9

IDFC ON SATURDAY reported an 11-fold jump in net profit in the December quarter at ₹26.28 crore, mainly due to a tax adjustment. The company's standalone net profit stood at ₹2.40 crore in the quarter ended December 31, 2017, it said in a statement.

The company's total income was down at ₹7.87 crore in the period under review from ₹13.26 crore a year ago.

However, there was a tax adjustment of ₹31.41 crore in favour of the company in the third quarter of the fiscal. For April-December 2018, the net profit of the company was ₹153.78 crore as compared to ₹152.65 crore for the corresponding period of the last fiscal. The company is engaged in only one segment—investment business—and as such there is no separate reporting segment as per Ind AS-106 'Operating Segments', it added.

Citizenship bill will in no way cause harm to Assam, NE's interests: PM

PRESS TRUST OF INDIA
Changarsi (Assam), February 9

PRIME MINISTER NARENDRA MODI on Saturday assured the people of Assam and the northeast that the citizenship bill will in no way cause harm to their interests.

Addressing a public rally in this assembly constituency of Assam health minister and BJP-led NEDA convener Himanta Biswa Sarma, he said the NDA government is committed to protecting the language, culture, resources, hopes and aspirations of the people of Assam and the

north-east. "It is a national commitment to the people of the north-east that they will not be harmed in any way and citizenship bill will be only granted after due investigation and recommendation of the state governments," Modi said.

It must be understood that there is a difference between those who forcefully entered the country and those who were "forced to flee their homes to save their lives due to their faith. Both are not the same", he asserted.

PC Jeweller Limited

Registered Office: C-54, Preet Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092
Phone: 011-49714971, Fax: 011-49714972, CIN: L369110, 2005PL, C134929
E-mail: investors@pcjeweller.com, Website: www.pcjeweller.com

Extract of standalone un-audited financial results for the quarter and nine months ended 31 December, 2018

S. No.	Particulars	Quarter Ended		
		31.12.2018 Unaudited	31.12.2018 Unaudited	31.12.2017 Unaudited*
1.	Total Income from Operations	2119.10	6177.39	2644.89
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	191.74	517.31	227.60
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	191.74	517.31	227.60
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	138.34	373.99	162.70
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	138.34	373.99	162.70
6.	Equity Share Capital	394.65	394.65	394.36
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)
1. Basic:		3.51	9.48	4.13
2. Diluted:		3.50	9.46	4.13

Restated (refer note 3 of detailed format of standalone un-audited financial results)

Note: The above is an extract of the detailed format of standalone un-audited financial results for the quarter and nine months ended 31 December, 2018 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone un-audited financial results for the quarter and nine months ended 31 December, 2018 are available on the website of PC Jeweller Limited (www.pcjeweller.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the website of the Company at the URL <https://corporate.pcjeweller.com/financial-results-and-annual-report/>.

For and on behalf of the Board of Directors
PC Jeweller Limited
Sd/-
Bilalram Garg
(Managing Director)
DIN: 06032083

Place: New Delhi
Date: 9 February 2019

OROSIL SMITHS INDIA LIMITED

(Registered Office: Flat No. K2, North Chambers, 88, Nehru Place, New Delhi-110019)
CIN: L74892DL1994PLC85341, Phone No. 120-4125476, Email: info@orosil.com, Website: www.orosil.com

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2018

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.18 Unaudited	30.09.18 Unaudited	31.12.17 Unaudited	31.12.16 Unaudited	
1.	Total Income from Operations (net)	29.27	26.85	134.10	106.57	243.02
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.93)	(115.14)	4.47	(30.00)	1.96
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.93)	(115.14)	4.47	(30.00)	1.96
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(0.93)	(115.14)	4.47	(30.00)	1.96
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(0.93)	(115.14)	4.47	(30.00)	1.96
6.	Equity Share Capital	413.16	413.16	413.10	413.10	413.16
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(281.34)				
8.	Earnings Per Share (Face value ₹/- each) (For Continuing and discontinued operations)	(0.02)	(0.03)	0.01	(0.07)	0.00

On behalf of Board of Director
OROSIL SMITHS INDIA LIMITED
Sd/-
(B. K. Narain)
Managing Director
DIN: 00031629

Place: Noida
Date: February 09, 2019

PACIFIC INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office : Survey No.13, N.H.48, Kempalanganahalli, Nelamangala Taluk, Distt. Bangalore-562123, Karnataka, INDIA.
Phone No. +91-90 27723004, 8027725979, Fax: +91-80 27723005
Visit us at : <http://www.pacificindustriestd.com>, Email: philnorth@pacificgrainites.com,
CIN-L1410K19189PLC62041

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31st DECEMBER, 2018

PARTICULARS	Quarter ended 31st December 2018 (Audited)		Corresponding Quarter ended 31st December 2017 (Unaudited)		Previous Year Ended 31st March 2018 (Audited)
	(₹ in Lacs)	(₹ in Lacs)	(₹ in Lacs)	(₹ in Lacs)	
Total Income from operations (Net)	2,627.21	1,491.36	7,387.57	6,559.52	
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	16.34	2.66	103.35	103.71	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	16.34	2.66	103.35	103.71	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	13.19	2.66	84.70	83.31	
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	31.10	8.30	116.60	116.18	
Equity Share Capital	135.15	135.15	135.15	135.15	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous year	-	-	-	-	6,187.37
Earnings Per Share (₹/- each) (For Continuing and discontinued operations)					
1. Basic:	0.98	0.20	7.31	6.17	
2. Diluted:	0.98	0.20	7.31	6.17	

(A) The above Financial Results for the quarter ended December, 31, 2018 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 09, 2019.

(B) Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement) Regulation 2015. The full format of the Un-audited results for the quarter ended 31.12.2018 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the company website (www.pacificindustriestd.com).

(C) Figures for the previous period have been regrouped and classified where necessary to make them in line with current period.

On behalf of the Board
PACIFIC INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
KAPILAGARHAL
(EXECUTIVE DIRECTOR)
DIN : 06082958

Place: Bengaluru
Date: 09.02.2019

TIL Limited

Regd. Office : 1, Taratolla Road, Garden Reach, Kolkata 700 024
Tel : +91 33 6633 2000 / 2845, Fax : +91 33 2469 2143/3731
CIN : L74999WB1974PLC041725
Website : www.tilindia.in

Extract of Standalone Unaudited Financial Results for Three Months and Nine Months ended 31st December, 2018

Sl. No.	Particulars	₹ in Lakhs, except Earnings Per Share			
		Three Months Ended		Nine Months Ended	
		31st December 2018	31st December 2017	31st December 2018	31st December 2017
1.	Total Income from Operations	11,311	9,794	33,492	27,280
2.	Profit for the period (Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	554	516	1,074	1,227
3.	Profit for the period Before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary Items)	554	516	1,074	1,227
4.	Profit from Ordinary Activities After Tax (after Extraordinary Items)	516	426	1,329	1,081
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and Other Comprehensive Income (After Tax)]	483	508	1,231	1,022
6.	Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	1,003	1,003	1,003	1,003
7.	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- each) Not Annualised				
(a) Basic (₹)		5.14	5.25	13.25	10.78
(b) Diluted (₹)		5.14	5.25	13.25	10.78

Notes :

- The above unaudited financial results, as reviewed by the Audit Committee of the Board, were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 8th February, 2019. Limited Review, as required under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been carried out by the Statutory Auditors of the Company.
- The above is an extract of the detailed format of three months and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the three months and nine months Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and on the Company's website www.tilindia.in.

Place : Kolkata
Date : 8th February, 2019

For TIL Limited
Sumit Mazumder
Chairman & Managing Director

Tractors India

punjab national bank
DO NOT CLICK TOWARDS BOMBAY/CHENNAI
CIRCLE OFFICE BOMBAY

CORROSIONUM

Attention of the concerned party (ies) and general public is invited to Auction Notice published in The Financial Express on 08.02.2019 in (SR 8) EMD 0.30 Lakh may please read as (SR 8) EMD 3.80 Lakh. Other terms and conditions of auction shall remain unaltered.

Authorized Officer, Punjab National Bank, (Secured Creditor)

NOTICE
Office of Narendran Kumar Chaturvedi
Advocate, Rajasthan High Court, Jaipur
C-108, 1st Floor, Colony, Ashok Nagar, Jaipur
Distt - 31-201, Jaipur
1, Indus Coasters Pvt. Ltd.
F-23 (AMD) Mahal-Nagar Industrial Area,
Jaipur
2, Innovative Build Estate Pvt. Ltd
No. Sector 14 Gurgaon (Haryana)

WHEREAS I was appointed as the Sole arbitrator by DR. Corp. Ltd., Jaipur on 07.01.2019 in respect of the dispute arising out of the letter agreement executed by you with them on 02.02.2014.

WHEREAS after giving due notice to you and also holding arbitration proceedings in Jaipur, I have passed an award in the case on 17.01.2019 and sent copies of the same to all concerned parties registered post.

WHEREAS my letter containing the above referred award sent to you has been returned undelivered by the postal authorities.

I, therefore, hereby give you this notice to please collect a copy of the award dated 17.01.2019 from me by my office upto 15.02.2019. If my plea be returned that in case I fail to do so, it will be treated that the award has been delivered to you.

Sd/- N. K. Chaturvedi
Sole Arbitrator, Mob.-982402390

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR
(Indra Circle, J.L.N. Marg, Jaipur)

GRAND AUCTION
OF GROUND HOUSING
PLOT NO-GH-1 (Corner)
Shiv Vihar, Mangyawas
Sanganer, Jaipur
Auction Date : 27.02.2019
Time : 2.30 P.M.

Area (Sq.Mtr.)	B.A.R. Without Betterment Levy	Height	Maximum Coverage Area	Bid Start Price (Per Sq. Mtr.)	Earnest Money
9675.57	Available as per Height	51 Mtr.	40%	₹ 22,000/-	₹ 50.00 Lacs

Coordinates : Latitude 26°51'53.53" N, Longitude 75°44'01.37" E

Auction Place : JDA Auction Hall

For Terms & Conditions of auction please log on website: www.jda.urban.rajasthan.gov.in or contact

O.S.D. (Resource Mobilization)
Ph: 0141-2569696 (7021, 7226, 1128), Cell: 91+9414310207

Deputy Commissioner-PRN South-1
Cell: 9828738158

SawadeeC/5725/2018-2019

